

फॉर्म नं० प्र० अं० ४० बी-१ (ब)/FORM ASLAAS-1 (B)

प्राधिकृत अधिकर्ता ( महिला प्रधान ) के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र  
APPLICATION FORM FOR AN INDIVIDUAL FOR APPOINTMENT AS  
AN AUTHORISED AGENT

सेवा में/To

.....  
(नियुक्ति प्राधिकारी/Appointing Authority)  
.....  
.....

विषय :- प्राधिकृत अधिकर्ता ( महिला प्रधान ) के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र  
Sub. :- Application for appointment as an Authorised Agent

महोदय/Sir,

निवेदन है कि मुझे.....केस में (मकान नं०/प्लॉट नं०.....  
.....तक जिनमें.....परिवार रहते हैं) डाकघर के 10-वर्षी  
बचने वाले सावधि जमा खातों/5-वर्षीय आवर्ती जमा खातों में जमा के लिए (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बचि-  
सुचित दर से) कमिशन के बांधार पर, प्रचार करने तथा रकमें जुटाने के लिए महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना  
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकर्ता (महिला प्रधान) नियुक्त किया जाए।

I request that I may be appointed as an Authorised Agent under the Mahila Pradhan  
Kshetriya Bachat Yojna for canvassing and securing deposits in 10-Year Post Office Cumulative  
Time/5-Year Recurring Deposit Accounts on a commission (at such rate as may be notified by  
the Govt. of India from time to time) in the.....rea  
Municipal House No./Plot No. ....to.....which  
consists of.....families).

2. मैं प्राधिकृत अधिकर्ताओं (महिला प्रधानों) की नियुक्ति के सम्बन्ध में उक्त अधिकरण योजना के अंतर्गत  
एक समय प्रवृत्त और समय-समय पर संशोधित नियमों तथा विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

I agree to abide by all the rules and regulations regarding the appointment of Authorised  
Agent at present in force and as may be amended from time to time under the above said  
Agency Scheme.

3. मैं सम्यक् रूप से भारत के राष्ट्रपति के नाम विरही रखकर 7-वर्षीय बचत-पत्र के रूप में 100 रुपये  
(एक सौ रुपये केवल) प्रतिवृत्ति (जमानत) दे दूँगी।

I shall provide a security of Rs. 100 (Rs. One hundred only) in shape of 7-Year National  
Savings Certificate duly pledged to President of India.

4. यह मुझे जापकी और से प्राधिकृत अधिकर्ता (महिला प्रधान) के रूप में मेरी नियुक्ति की सूचना मिल  
जायेगी उसी समय करार (फॉर्म नं० प्र० अं० ४० बी-३) का सम्पादन कर दिया जायेगा।

The Agreement (Form ASLAAS-3) will be executed by me immediately on hearing from  
you about the approval of my appointment as an Authorised Agent.

5. मैं इसके साथ अपने हस्ताक्षर के तीन नमूने भेज रही हूँ।  
I enclose herewith, in triplicate, my specimen signature.

भवदीय/Yours faithfully

.....  
आवेदक का नाम और पूरा पता  
Name and full address of the applicant  
.....  
.....

स्थान/Place

दिनांक/Date

जिला बचत अधिकारी द्वारा प्रयोग के लिए  
FOR USE BY THE DISTRICT SAVINGS OFFICER

दफ़त संख्या/Memo. No..... दिनांक/Dated.....

Forwarded to.....

को प्रेषित ।

(नियुक्ति प्राधिकारी/Appointing Authority)

सिफारिश की जाती है कि आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी (महिला प्रधान) के रूप में नियुक्त कर दिया जाए/  
निम्नलिखित कारणों से नियुक्त न किया जाए :

Recommended that the applicant may be/may not be appointed as an authorised agent on  
account of the following reasons :

.....  
.....  
.....

हस्ताक्षर/Signature.....

(जिला बचत अधिकारी)  
(District Savings Officer)

.....  
(स्थान/Place)

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रयोग के लिए  
FOR USE OF APPOINTING AUTHORITY

.....के जिला बचत अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार  
नियुक्ति अनुमोदित की जाती/नहीं की जाती है ।

Appointment as recommended by the District Savings Officer, National Savings  
.....approved/not approved.

स्थान/Place..... हस्ताक्षर/Signature.....

दिनांक/Dated.....

(नियुक्ति प्राधिकारी का पद)  
(Designation of Appointing Authority)

(आवेदन पत्र पर किसी की सिफारिश होने की स्थिति में ही उसे भरा जाना चाहिए)  
[To be filled up only if the application is recommended by somebody]

मैं इस आवेदन पत्र की सिफारिश करता हूँ :—  
I recommend this application :—

नाम/Name ..... हस्ताक्षर/Signature .....

पूरा पता/Full Address ..... पद/Designation .....

..... तारीख/Date .....

(नियुक्त प्राधिकारी के कार्यालय में भरा जायेगा)  
(TO BE FILLED UP IN THE OFFICE OF THE APPOINTING AUTHORITY)

(1) आवेदन पत्र जांच करने वाले का नाम .....  
Application scrutinised by

हस्ताक्षर/Signature ..... पद/Designation .....

(2) प्राधिकृत एजेंट के रूप में आवेदन की नियुक्ति ..... तारीख  
को अनुमोदित हुई। यह अनुमोदन जामिनों की (यदि जामिन प्रस्तुत किये गये हों) सम्पन्नता के स्थापन करने के  
पश्चात् ही किया गया।

Applicant's appointment as Authorised Agent approved on.....(Date)  
after verifying the solvency of the sureties, in cases where sureties are put up.

(3) करार के पूरी तरह से भरे जा चुकने की तारीख .....(Date)  
Agreement completed on.....

(4) प्राधिकार पत्र सं० ..... तारीख ..... को जारी किया गया।  
Certificate(s) of Authority bearing number (s) ..... issued on .....(Date)

(5) नियुक्त प्राधिकारी के हस्ताक्षर .....  
Signature of Appointing authority

(6) नियुक्त प्राधिकारी का पदनाम/ ..... तारीख ..... 199  
Designation of Appointing Authority ..... Date



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय बचत संगठन  
NATIONAL SAVINGS ORGANISATION

प्राधिकृत एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र  
Application Form for Appointment as Authorised Agent

(केवल व्यक्तियों के प्रयोग के लिए)  
(To be used by Individuals only)

सेवा में/To.....

महोदय/Sir,

मैं 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम निर्गमों और 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय टाईम  
डिपोजिटों राष्ट्रीय विकास बॉण्ड, 15 वर्षीय राष्ट्रीय बचत वार्षिकी पत्र तथा ऐसी अन्य अल्प बचत प्रतिभूतियों की बिक्री के  
लिए, जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित की जाएं, जिनके लिए प्राधिकृत  
एजेंट प्रचार कर सकते हैं, एक प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ।

I desire to act as an Authorised Agent for the sale of 7 Years National Savings Certificates  
Second, Third, Fourth & Fifth Issues 2, 3 & 5 year Time Deposits National Development Bond,  
15 Year National Savings Annuity Certificates and other Small Savings Securities, which may be  
notified by the Government of India from time to time as securities which Authorised Agent may  
canvass.

2. (क) मेरा पूरा नाम ..... (a) My full name is .....
- (ख) मेरे पिता का नाम ..... (b) My father's name is .....
- (ग) मेरा कामघंटा ..... (c) My occupation is .....
- (घ) मेरे कारोबार/कार्यालय का पता ..... (d) My business/Office address is .....
- (ङ) मेरे घर का पता ..... (e) My residential address is .....
- (च) मेरी आयु ..... (f) My age is .....years.....

3. मैं घोषणा करता हूँ कि—(i) मैं डाक तार विभाग में काम करने वाले किसी राजपत्रित अधिकारी का निकट संबंधी (अर्थात् पत्नी, पति, वैध सन्तान, सीधे सीधे सन्तान, माता, पिता, बहन या भाई) नहीं हूँ, (ii) मैं डाक तार विभाग के पोस्टल डिबिजन में काम करने वाले किसी अराजपत्रित अधिकारी का निकट संबंधी नहीं हूँ या उस पर आश्रित रिश्तेदार नहीं हूँ, (iii) मैं राष्ट्रीय बचत संगठन के किसी कर्मचारी का निकट संबंधी नहीं हूँ।

I declare that—(i) I am not a close relative (i.e., wife, husband, legitimate child or step child, father, mother, sister or brother) of a Gazetted officer working in the Posts & Telegraph Department, (ii) I am not a close relative (i.e., husband, wife, legitimate child or step child, father, mother, sister or brother) of or a relative depending upon a non-Gazetted officer working in the P. & T. Department anywhere in the Postal Division and (iii) I am not a close relative of an employee of the National Savings Organisation.

4. (क) मैं निवेदन करता हूँ कि डाकघरों से जारी किए जाने वाले बचतपत्रों की बिक्री के लिए मुझे निम्नलिखित डाकघर(रों) के साथ संबद्ध किया जाए :—

(a) I request that for the sale of certificates issued through Post offices, I may be attached to the under noted Post Office(s) :—

(i) ..... जी०पी०ओ०/एच०पी०ओ०/एस०पी०ओ०/बी०पी०ओ०  
G. P. O./H. P. O./S. P. O./B. P. O.

(ii) ..... जी०पी०ओ०/एच०पी०ओ०/एस०पी०ओ०/बी०पी०ओ०  
G. P. O./H. P. O./S. P. O./B. P. O.

(iii) ..... जी०पी०ओ०/एच०पी०ओ०/एस०पी०ओ०/बी०पी०ओ०  
G. P. O./H. P. O./S. P. O./B. P. O.

(ख) अन्य एजेंसियों से जारी किए जाने वाले बचत पत्रों के लिए मुझे निम्नलिखित कार्यालयों से संबद्ध किया जाए :—

(b) In respect of certificates issued through other agencies, I may be attached to the following office(s) :—

(i) .....

(ii) .....

5. \*यदि मुझे नियुक्त कर लिया गया तो मैं—

\*In the event of my appointment being approved, I shall—

(क) दो स्वीकार्य जामिन प्रस्तुत करूंगा और उनमें से प्रत्येक ..... तक की गारंटी करेगा।

(a) Put up two acceptable sureties each guaranteeing to the extent of the Rs. ....

या/OR

(ख) ..... रुपये तक या इसी रकम के कुल निर्दिष्ट मूल्य सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जमानत प्रस्तुत करूंगा।

(b) Furnish security in cash or in the shape of Government securities totalling the price of Rs. ....

या/OR

(ग) ..... रुपये के लिए एक बक की जमानत दूंगा।

(c) Furnish one surety of a bank for Rs. ....

या/OR

(घ) ..... रुपये की फिडेलिटी गारंटी पालिसी प्रस्तुत करूंगा।

(c) Furnish a Fidelity Guarantee Policy of value of Rs. ....

6. मैं प्राधिकृत एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में उन सब नियमों, विनियमों, अनुदेशों आदि का पालन करने के सहमत हूँ जो इस समय लागू हैं और जिस रूप में वे समय-समय पर संशोधित होते रहेंगे।

I agree to abide by all the rules, regulations, instructions, etc. regarding the appointment of authorised agent at present in force and as may be amended from time to time.

7. मैंने पहले ..... वर्ष में ..... स्थान पर प्राधिकृत एजेंट के रूप में कार्य किया।

I Previously worked as Authorised Agent at.....during the year (s) .....

या/OR

मैंने अभी तक प्राधिकृत एजेंट के रूप में कार्य नहीं किया है।

I have not so far worked as Authorised Agent.

8. मुझे ..... से रसीद बुकें प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

(निर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम और पता)

I may be allowed to obtain Receipt Books from.....

(Name and address of Issuing Authority)

भवदीय/Yours faithfully

स्थान/Place .....

तारीख/Date ..... आवेदक के हस्ताक्षर/Signature of Applicant.....

\*सरकारी कर्मचारियों को अंतर्गत एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया जो उन्हें प्राप्त करने के लिए